



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1283]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 1283]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

का.आ. 1868(अ).— केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्यों को मिलाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन करती है, अर्थात्:—

क्र.सं.	नाम/पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	नियुक्ति की अवधि
1	भारसाधक मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	अध्यक्ष	पदेन
2	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई	सदस्य	पदेन
3	आयोग का एक आंचलिक सदस्य— छमाही क्रमावर्ती	सदस्य	रिक्त
4	आयोग का एक विशेष सदस्य— छमाही क्रमावर्ती	सदस्य	रिक्त
5	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
6	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार से नीचे की पंक्ति का न हो, कृषि भवन नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
7	सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार या उनका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव, से नीचे की पंक्ति का न हो, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन

8	सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय क्षेत्र का कार्य देखने वाले आर्थिक कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
9	विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
10	सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्यम), नीति आयोग, संसद मार्ग नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
11	हथकरघा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
12	हस्तशिल्प विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी ब्लॉक-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
13	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य	पदेन
14	महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
15	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), 10/10, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।	सदस्य	पदेन
16	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या उनका नामनिर्देशिती, जो कार्यकारी निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, स्टीरिंग सेंटर, प्रथम मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई।	सदस्य	पदेन
17	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक या उनका नामनिर्देशिती, जो उप प्रबंध निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मैडम कामा रोड, मुंबई।	सदस्य	पदेन
18	महानिदेशक, पब्लिक एक्शन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, इंडिया हेबिटेट सेंटर, जोन-5 (कोर-सी), द्वितीय मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
19	भारसाधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, राजस्थान प्रदेश सरकार उत्तरी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
20	भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, त्रिपुरा प्रदेश सरकार उत्तर पूर्वी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
21	भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, उत्तरांचल प्रदेश सरकार मध्य अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
22	भार साधक-सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, ओडिशा प्रदेश सरकार पूर्वी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
23	भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, गुजरात प्रदेश सरकार पश्चिमी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
24	भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, तेलंगाना प्रदेश सरकार दक्षिणी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
25	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जम्मू और कश्मीर उत्तरी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
26	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, असम सरकार उत्तर पूर्व अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
27	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ मध्य अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
28	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अंडमान और निकोबार पूर्वी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष

29	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, महाराष्ट्र पश्चिमी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
30	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, आंध्र प्रदेश दक्षिणी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
31	श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)।	सदस्य	3 वर्ष अथवा 16वीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो
32	श्री शिवाजी अधलराव पाटिल, संसद सदस्य (लोक सभा)।	सदस्य	3 वर्ष अथवा 16वीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो
33	रिक्त		
34	रिक्त		
35	रिक्त		
36	रिक्त		
37	रिक्त		
38	रिक्त		
39	रिक्त		
40	रिक्त		
41	रिक्त		
42	रिक्त		
43	रिक्त		
44	रिक्त		
45	रिक्त		
46	रिक्त		
47	रिक्त		
48	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
49	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
50	वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई।	सदस्य	पदेन
51	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई।	सदस्य-सचिव	पदेन

[फा. सं. 6(6)/2013-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

S.O. 1868(E).— In exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rules 15 and 17 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes the National Khadi and Village Industries Board, consisting of the following Chairman and other members, for a period shown against their names, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:—

Sr. No.	Name/designation	Chairman/ Member	Period of appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Minister, in-charge of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Udyog Bhawan	Chairman	<i>ex officio</i> ;
2.	Chairman, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai	Member	<i>ex officio</i> ;
3.	One zonal member of the Commission- by bi-annual rotation	Member	<i>vacant</i>
4.	One expert member of the Commission-by bi-annual rotation	Member	<i>vacant</i>
5.	Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
6.	Secretary to the Government of India in the Ministry of Rural Development, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
7.	Secretary to the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Anusandhan Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
8.	Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs dealing with financial sector, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
9.	Development Commissioner for Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
10.	Adviser (Village and Small Enterprises) in the National Institute of Transforming India Aayog, Sansad Marg, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
11.	Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
12.	Development Commissioner for Handicraft, Ministry of Textiles, Government of India, West Block 7, R.K. Puram, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
13.	Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad	Member	<i>ex officio</i> ;
14.	Director General, National Institute of Fashion Technology, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
15.	Chairman and Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), 10/10, Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow	Member	<i>ex officio</i> ;

16.	Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development or his nominee not below the rank of Executive Director, Sterling Center, 1 st Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai	Member	<i>ex officio</i> ;
17.	Chairman, State Bank of India or his nominee not below the rank of a Deputy Managing Director, New Administrative Building, Madam Cama Road, Mumbai	Member	<i>ex officio</i> ;
18.	Director General, Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology, India Habitat Center, Zone-5, (Core-C), 2 nd Floor, Lodhi Road, New Delhi	Member	<i>ex officio</i> ;
19.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of the State Government of Rajasthan representing Northern Zone	Member	one year;
20.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Tripura representing North-Eastern Zone	Member	one year;
21.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Uttaranchal representing Central Zone	Member	one year;
22.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Odisha representing Eastern Zone	Member	one year;
23.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Gujarat representing Western Zone	Member	one year;
24.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Telangana representing Southern Zone	Member	one year;
25.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Jammu and Kashmir representing Northern Zone	Member	one year;
26.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Assam representing North-Eastern Zone	Member	one year;
27.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Chhatisgarh representing Central Zone	Member	one year;
28.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Andaman and Nicobar representing Eastern Zone	Member	one year;
29.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Maharashtra representing Western Zone	Member	one year;
30.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Andhra Pradesh representing Southern Zone	Member	one year;
31.	Shri Arjun Ram Meghwal, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member	three years or till the expiry of the term of Sixteenth Lok Sabha, whichever is earlier;
32.	Shri Shivaji Adhalrao Patil, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member	three years or till the expiry of the term of Sixteenth Lok Sabha, whichever is earlier;
33.	Vacant		
34.	Vacant		
35.	Vacant		
36.	vacant		
37.	Vacant		
38.	Vacant		
39.	Vacant		
40.	Vacant		
41.	Vacant		
42.	Vacant		
43.	Vacant		
44.	Vacant		

45.	Vacant		
46.	Vacant		
47.	Vacant		
48.	Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio;</i>
49.	Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	<i>ex officio;</i>
50.	Financial Adviser, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai	Member	<i>ex officio;</i>
51.	Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai	Member-Secretary	<i>ex officio.</i>

[F. No. 6(6)/2013-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.